



SURAJ PRODUCTS LIMITED

Registered Office & Works :

CIN : L26942OR1991PLC002865

Vill. : Barpali, P.O. : Kesramal, Rajgangpur, Dist. : Sundargarh, Odisha, India, PIN : 770017

Tel : +91-94370 49074, e-mail : info@surajproducts.com, suproduct@gmail.com

www.surajproducts.com

Dated: September 05, 2023

The Secretary
Bombay Stock Exchange Limited
(Department of Corporate Services)
Floor 25, P.J.Tower, Dalal Street
Mumbai – 400001

Dear Sir,

Subject: Submission under Regulation 47 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We are enclosing herewith copies of newspaper cutting published pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as detailed herewith:

Paper cuttings of "Business Standard" (English & Hindi Newspaper) published on September 05, 2023 and Utkal Mail (Oriya News Paper) published on September 05, 2023 regarding publication of Notice of Board Meeting to be held on Monday the 11th day of September, 2023 to discuss general affairs of the Company. Copy of newspaper cuttings in this connection are attached for your reference.

Kindly take the same on record.

Thanking you,
Yours Faithfully,
For Suraj Products Limited


A.N.Khatua
Company Secretary



Encl. as above
Copy to:

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range, Kolkata – 700001

Whereas, The Undersigned Being The Authorized Officer Of Kotak Mahindra Bank Ltd., Under The Securitization And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (54 Of 2002) And In Exercise Of Powers Conferred Under Section 13(12) Read With Rule 3 Of The Security Interest (Enforcement) Rules 2002 Issued Demand Notices To The Borrowers As Detailed Hereunder, Calling Upon The Respective Borrowers To Repay The Amount Specified Therein With Future Interest, Costs And Expenses Till Actual Date Of Payment Within 60 Days From The Date Of Receipt Of The Same. The Said Borrower(S) Co Borrower(S) Having Failed To Reply The Amount, Notice is Hereby Given To The Borrowers/ Co Borrowers And The Public In General That The Undersigned Has Taken Possession Of The Property Described Hereunder In Exercise Of Powers Conferred On Him Under Section 13(4) Of The Said Act/R/W Rule 8 Of The Said Rules On The Dates Mentioned Along-With. The Borrowers In Particular And Public In General Are Hereby Cautioned Not To Deal With The Properties And Any Dealings With The Properties Will Be Subject To The Charge Of Kotak Mahindra Bank Ltd. For The Amount Specified Therein With Future Interest, Costs And Charges From The Respective Dates. The Borrowers Attention is Invited To Provisions Of Sub Section (8) Of Section 13 Of The Act, In Respect Of Time Available To Redeem The Secured Assets. Details Of The Borrowers, Scheduled Property, Outstanding Dues, Demand Notices Sent Under Section 13(2) And Amounts Claimed There Under, Date Of Possession is Given Herein Below

Table with 4 columns: Name and Address Of The Borrower, Co-Borrower Loan Account No., Loan Amount; Details Of The Immovable Property; 1. Date Of Possession; 2. Type Of Possession; 3. Demand Notice Date; 4. Amount Due In Rs.

Chandernagore Municipal Corporation
1. Tender No. WBMAID/CMC/COMMISSIONER/PWD/ NIT-20(e)& 21(e)/2023-24, Dt-04.09.2023
Memo No. 3133/PWD/TENDER/23-24/20 & 21, Dt-04.09.2023
Various Developments of Municipal Areas For details, please visit the website- www.chandernagoremunicipalcorporation.in
Asst. Engineer Chandernagore Municipal Corporation

Office of The Hooghly Zilla Parishad P.O.-Chinsurah, Dist.-Hooghly
NIT No. : HGL/N-029/2023-24 and HGL/N-030/2023-24. For details log on to "e-procurement" link under https://wbtennders.gov.in and http://www.hooghlyzp.org Website. Sd/- District Engineer Hooghly Zilla Parishad

LOST & FOUND
We have lost Original Agreement of Sale dated 02/03/2012 for Unit/Plot No. PH-II / 294 (299 Sqr. Yrds; Unit / Plot No. PH-II /155 (215.28 Sqr. Yrds); Unit / Plot No. PH-II / 156) (215.28 Sqr. Yrds) situated at Puspbanjali Baikunth, Vrindavan on 04/09/2023. If anyone find the documents please contact to this below number. WESTWIN TEXTILE PVT LTD. -9339155102

SURAJ PRODUCTS LIMITED
CIN:L26942OR1991PL3002865
Regd. Off.: Vill:- Barpali, P.O.: Kesramal Rajangpur, Dist.: Sundargarh, Odisha - 750017

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at its Registered office on Monday, the 11th day of September, 2023 inter alia to transact the following business:
1. To discuss general affairs of the Company.
2. Any other item, if any with the permission of the Chair.

LOST DEED
It is notified to all concerned that the Deed bearing no.2003 for the year 1993 dated 05.05.1993 registered at ADSR Haripal at Hooghly in the name of Khirud Jiban Sadhukhan, S/o late Arjun Ch. Sadhukhan of Vill: Aminpur (East), P.O. Khamarchandi, P.S. - Haripal, Dist.: Hooghly, PIN-712405 was lost, it was duly entered as General Diary, Vide No.325/2023, Dated 10.08.2023 at Haripal Police Station. If any person's trace or found the said title deed, please return the same to the undersigned within 15 days from the date of publication. That no claim, demand shall be entertained after the stipulated period. If any transaction is made with any person's, authority by the strength of this missing deed, shall be deemed to be null and void. Schedule of the Property: All that piece and parcel of Bastu land, measuring an area of 3.75 Decimal as per deed together with two storied building lying at Mouza- Aminpur, J.L. No. 71, Comprised R.S. Dag No.1346, corresponding to L.R. Dag No.299, under L.R. Khatian No. 371, within the ambit of Aminpur Gram Panchayat, under P.S. Haripal, Dist.-Hooghly, W.B.
Now the person Mr. Khirud Jiban Sadhukhan wishes to create charge viz mortgage on the said property for a credit facility from The State Bank of India, Haripal Branch (6150)
Advocate Name: Santanu Nandy Contact No.: 9734048759

Abridged Tender Notice
NIT Memo No. 1911/Aus-II, Dated-02.09.2023 (e-N IT No-56/Aus/II-23-24)
Tender is invited for Supply of E-cart with motor capacity 48 volt, 1000 watt; controller capacity of 48 volt, 1000 watt, 43mm hydraulic from absorber, leaf spring rear suspension with tire size 90x90x12 and loading capacity of 800kg with speed @ 25 km per hour with heavy duty wiring with fused & drum with rim brake, carriage box 1.5m, 24 tube controller, 4.48 volt battery with 1 year full warranty Battery operated e- rickshaw for garjeb carrying with hydraulic keeping. Including cost of GST & other charges. E-cart -10 (Ten nos.). Date of Closing of Submission of technical and Financial Bid 09.09.2023 upto 11.00 A.M. For any more details contact the office of the undersigned or visit website http://wbtennders.gov.in. Sd/- B.D.O & E.O., Ausgram-II Purba Bardhaman

PUBLIC NOTICE
General public is hereby informed that our client, M/s. Muthoot Finance Ltd. (GSTIN 32AABCT0343B127), Registered Office: 2nd Floor, Muthoot Chambers, Banerji Road, Kochi-682018, Kerala, India, CIN: L65910KL1997PLC011300, Ph: +91 484-2396478, 2394712, Fax: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com is conducting Auction of ornaments (Spurious/Low quality accounts for the period up to 31.03.2023), pledged in its favour, by the defaulting Borrowers, as detailed hereunder. All those interested may participate.
First Auction Date: 21.09.2023
Spurious & Low Quality: North Lakhimpur : MUL-4259
Second Auction Date: 22.09.2023, Auction Centre: First Floor, Near Indusind Bank, SB Road, Thakurbari, District North Lakhimpur, Assam-787001
First Auction Date: 21.09.2023
Spurious & Low Quality: Barpeta : MUL-6566
Second Auction Date: 23.09.2023, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., First Floor, Amatol, Barpeta Road, Dist. Barpeta, Assam-781315
First Auction Date: 21.09.2023
Spurious & Low Quality: Tinsukia : MUL-3129, RGL-1876
Second Auction Date: 25.09.2023, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., First Floor, Senairam Lohia Road, PS&PO, Tinsukia, Assam-786125
First Auction Date: 21.09.2023
Spurious & Low Quality: Jagroad: MDL-557, MUL-1148
Second Auction Date: 26.09.2023, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., First Floor, KDM Complex, Morigaon Road, Ghunusha, Jagroad-782410
First Auction Date: 21.09.2023
Spurious & Low Quality: Golaghat-GF Road: TMS-135
Second Auction Date: 27.09.2023, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., First Floor, Holding No.10, Ward No. 41, GF Road, Golaghat, Assam-785621
The auctions in respect of the loan accounts shown under the branch head will be conducted at the respective branches. However, please note that in case the auction does not get completed on the given date(s), then in that event the auction in respect thereto shall be conducted/continued on Second Auction date at given auction centre, and further in case the said ornaments are still not successfully auctioned on these dates then such auction shall be continued on subsequent days thereafter, at this same venue. No further notices shall be issued in this respect.
Kohli & Soti, Advocates, A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024
Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact Email ID: recoverynorth@muthootgroup.com or Call at 7834886644, 7994452461.

Indian Bank SURI BRANCH
D. C. Das Road, Post - Suri Dist - Birbhum, Pin - 731 101

APPENDIX - IV - A [See Proviso to Rule 8(6)]
SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Immovable Property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Symbolic Possession of which has been taken by the Authorized Officer of Indian Bank (erstwhile Allahabad Bank), Rampurhat Branch (Secured Creditor), will be sold on "As is where is basis", "As is what is basis", and "Whatever there is basis" on 20.09.2023, for recovery of Rs. 872,219.00 (Rupees Eight Lakh Seventy Two Thousand Two Hundred Nineteen only) as on 02.09.2023 plus interest / charges and expenses thereon to payment for Indian Bank (erstwhile Allahabad Bank), Rampurhat Branch (Secured Creditor) from Raju Seikh (Borrower), S/o. Golam Mostafa, Vill - Kabilpur, P.O. - Rampurhat, Dist. - Birbhum (W.B.).

Table with 4 columns: Sl. No., a) Name of Account / Borrower, b) Name of the Branch, Detailed Description of Immovable Property(ies), Secured Creditors Outstanding Dues, a) Reserve Price, b) EMD Amount, c) BID Increment Amount, d) Property ID, e) Encumbrance on Property

(*) SALE PRICE SHOULD BE ABOVE RESERVE PRICE

Date and Time of E-auction : Date - 20.09.2023, Time - 11.00 A.M. to 05.00 P.M.
Platform of E-auction Service Provider : https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

Bidders are advised to visit the website (www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi) of our e-auction service provider MSTC Ltd. to participate in online bid. For Technical Assistance Please call MSTC HELPDESK No. 033 23400020 / 23400022 and other help line numbers available in service providers help desk. For Registration status with MSTC Ltd., please contact ibapiop@mstcecommerce.com and for EMD status please contact ibapifin@mstcecommerce.com.

For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit : https://ibapi.in and for clarification related to this portal, please contact help line number "18001025026" and "011-4110 6131". Bidders are advised to use Property ID Number mentioned above while searching for the property in the website with https://ibapi.in and www.mstcecommerce.com

NOTE : THIS IS ALSO A NOTICE TO THE BORROWER(S) / MORTGAGOR(S) / GUARANTOR(S)
Date : 02.09.2023
Place : Suri
Authorised Officer Indian Bank

Stressed Asset Recovery Branch
Gandhibagh Branch: "Haldiran Building", 1174, Jalajpura, Gandhibagh, Nagpur-440002, INDIA
Ph: 0712-2764653, 2764625 E-mail: gannag@bankofbaroda.co.in Web: www.bankofbaroda.com

NOTICE TO BORROWER
(UNDER SUB-SECTION 2 (K) OF SECTION 13 OF THE SARFAESI ACT, 2002. Date: 08.08.2023

Ref. No.: SERFAISE/2022-23
Mr. Rudrani Sushil Kumar Manna Mr Dhritish Sushilkumar Manna 64/47 A,A Khudiram Bose Sarani Belgachia Road, Ultadanga Kolkata-700037 West Bengal
Dear Sir,
Re: Credit facilities with our Jaripatka Branch
1. We refer to our letter dated 30.12.2011 conveying sanction of various credit facilities and the terms of sanction. Pursuant to the above sanction you have availed and started utilising the credit facilities after providing security for the same, as hereinafter stated. The present outstanding in various loan/credit facility accounts and the security interests created for such liability are as under:

Table with 4 columns: Nature and type of facility, Limit Rs. (In Lacs), Rates of interest, O/s as on 07-08-2023 + unapplied interest other charges, Security agreement with brief description of securities

2. In the letter of acknowledgement of debt dated NIL you have acknowledged your liability to the Bank to the tune of Rs. NIL lakhs as on NIL. The outstanding stated above include further drawings and interest upto NIL. Other charges debited to the account are Rs. NIL.
(Or)
2. In the audited balance sheet of the Company for the year ended NIL you have confirmed and acknowledged liability to the Bank to the tune of Rs. NIL lakhs as on 31st March NIL. The outstanding stated above include further drawings and interest up to NIL. Other charges debited to the account are Rs. NIL.
3. As you are aware, you have committed defaults in payment of interest on above loans/outstandings for the quarter ended Sep 2014 You have also defaulted in payment of instalments of term loan/demand loans which have fallen due for payment on Sep - 2014 and thereafter.
4. Consequently upon the defaults committed by you, your loan account has been classified as non-performing asset on 03.11.2014 (mention date of classification as NPA) in accordance with the Reserve Bank of India directives and guidelines. In spite of our repeated requests and demands you have not repaid the overdue loans including interest thereon.
5. Having regard to your inability to meet your liabilities in respect of the credit facilities duly secured by various securities mentioned in para 1 above, and classification of your account as a non-performing asset, we hereby give you notice under sub-section (2) of section 13 of the Securitisation and reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, and call upon you to pay in full and discharge your liabilities to the Bank aggregating Rs. 7,29,312.00 + unapplied interest + other charges, as stated in para 1 above, within 60 days from the date of this notice. We further give you notice that failing payment of the above amount with interest till the date of payment, we shall be free to exercise all or any of the rights under sub-section (4) of section 13 of the said Act, which please note.
6. Please note that, interest will continue to accrue at the rates specified in para 1 above for each credit facility until payment in full.
7. We invite your attention to sub-section 13 of the said Act in terms of which you are barred from transferring any of the secured assets referred to in para 1 above by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business), without obtaining our prior written consent. We may add that non-compliance with the above provision contained in section 13(13) of the said Act, is an offence punishable under section 29 of the Act.
8. We further invite your attention to subsection (8) of section 13 of the said Act in terms of which you may redeem the secured assets, if the amount of dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Bank is tendered by you, at any time before the date of publication of notice for public auction/invited quotations/tender/private treaty. Please note that after publication of the notice as above, your right to redeem the secured assets will not be available.
9. Please note that this demand notice is without prejudice to and shall not be construed as waiver of any other rights or remedies which we may have, including without limitation, the right to make further demands in respect of sums owing to us.
Chief Manager & Authorised Officer Bank Of Baroda
Yours faithfully,

SBI STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH, SOUTH BENGAL E-AUCTION SALE NOTICE
Jeevan Deep Building, 2nd Floor, 1, Middleton Street, Kolkata - 700 071
Phone : (033) 2288 4437, Fax : (033) 2288 4302, E-mail : sbi.15196@sbi.co.in

Authorised Officer's Details : Name: Tapan Kumar Roy, e-mail ID : sbi.15196@sbi.co.in, Mobile No. : 08001207811
E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) & Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the Public in general and in particular to the Borrower and Guarantors that the below described immovable property mortgaged to the Secured Creditor, the Symbolic Possession of which has been taken by the Authorized Officer of State Bank of India, the Secured Creditor, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" basis on 21.09.2023. Intending bidders should transfer his EMD amount by means of challan generated on his bid account maintained with MSTC Ltd at https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp by means of NEFT/ RTGS transfer from his bank account well before the auction date.
DATE & TIME OF E-AUCTION : DATE : 21.09.2023
TIME OF AUCTION : 11.00 A.M. TO 4.00 P.M. WITH UNLIMITED EXTENSIONS OF 10 MINUTES FOR EACH BID.
Last date of making pre-bid EMD payment: Interested bidder may deposit Pre-Bid EMD with MSTC before the close of e-auction. Credit of Pre-bid EMD shall be given to the bidder only after receipt of payment in MSTC's Bank account and updation of such information in the e-auction website. This may take some time as per banking process and hence bidders, in their own interest, are advised to submit the pre-bid EMD amount well in advance to avoid any last minute problem.

Table with 5 columns: Sl. No., Name of the Unit / Borrower/Guarantor/ Mortgageor, Description of Property, Outstanding Dues, Reserve Price, EMD @ 10%, Bid Increase Amt., Inspection Date

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in State Bank of India, the Secured Creditor's website www.sbi.co.in and specific link created for the particular e-Auction : https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp.

The intending bidder is advised to go through the detailed terms & conditions uploaded in above mention site before participating in the auction process.
Date: 05.09.2023
Place: Kolkata
In case of any dispute the English version shall prevail
Authorised Officer State Bank of India

Ujjivan SMALL FINANCE BANK
Registered Office: Grape Garden , No. 27 3rd 'A' Cross, 18th Main, 6th Block, Kormangala, Bengaluru-560095
Regional Office :- GMTT Building Plot No. D-7, Sector-3 Noida (UP)
Branch Office :- Ujjivan Small Finance Bank at Raipur Branch Situated at:- Abadi Kh. No.139, H.No. 38/517,518,564/4, Ground Floor and First Floor, Tatyapara, Ward No. 38, P.C. No. 106A, RIS - Raipur, Tehsil & Distt. Raipur (C.G.)

PUBLIC NOTICE FOR SALE UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT (SARFAESI ACT) 2002, READ WITH PROVISORULE 8(6) & 9 OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002.

The undersigned as authorised officer of Ujjivan Small Finance Bank Ltd, has taken possession of the following property in exercise of powers conferred under section 13(4) of the SARFAESI ACT. The Borrower in particular and public at large are informed that Public auction of the mortgage property in the below mentioned account for realisation of dues of the Bank will be held on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" on the date as prescribed as hereunder.

Table with 12 columns: Sr. No., Loan Account Number, Name of Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor, Date of 13-2 Notice & Demand Amount, Date of Possession, Present Outstanding balance, Date & Time of Inspection of the property, Reserve Price in INR, Earnest Money Deposit(EMD) in INR (10 % of reserve price), Date and Time of E-Auction, Last date for submission of Bid, Account details for remitting EMD (EMD to be deposited through Demand Draft drawn in favour of Ujjivan Small Finance Bank)

Property Description/Schedule :- All that part & parcel of House being situated at part of Khasra No. 418/4 P.H. No. 105, Ward No. 52, Chandra Shekhar Azad Ward, Mouja- Mathpuren, Tehsil & Distt- Raipur (CG), North: H/o Durgesh, East: Other House, South: Other's Open Plot, West: Road

Terms & Conditions :-
The e-Auction is being held on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "whatever there is" BASIS".
1. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there is no encumbrance on any property. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property/ies put on auction and claims/rights/dues/ affecting the property, prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorised Officer/ Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/ rights/ dues.
2. It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid. The inspection of property/ies put on auction will be permitted to interested bidders at sites as mentioned against each property description.
3. The Interested Bidders shall submit their Bid before the Authorised officer undersigned before the auction date as mentioned above.
4. The E-Auction will be conducted through Ujjivan Small Finance Bank approved E-auction service provider - M/s C1 India PVT LTD. Contact person - Vinod Chauhan (Mo. No. 9813887931). The intending bidders are advised to visit https://www.bankauctions.com or https://www.ujjivanfb.in/e-auctions for the details of the properties in the website and for taking part in the bid they should register their names at portal https://www.bankauctions.com and get their user-id and password free of cost. Prospective bidders may avail online training on E-Auction from the service provider M/s. C1 India PVT LTD. Helpline Number's- 7291918824,25,26 support email id:- support@bankauctions.com. Auction portal- https://www.bankauctions.com.
5. Property shall be sold to the highest bidder/ offered, subject to acceptance of the bid by the secured creditor, i.e., Ujjivan Small Finance Bank Ltd. However, the undersigned has the absolute discretion to allow inter-se bidding if deemed necessary. The Authorised officer has the discretion to accept or reject any offer/ Tender without assigning any reason.
6. The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The Earnest Money Deposit shall not bear any interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price, adjusting the EMD already paid, within 24 hours of the acceptance of bid price by the Authorised Officer and the balance 75% of the sale price on or before 15th day of sale or within such extended period in any case not exceeding 3 months as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorised Officer. In case of default in payment by the successful bidder, the amount already deposited by the offer shall be liable to be forfeited and property shall be put to re-auction and the defaulting Purchaser shall have no claim/ right in respect of property/ amount.
7. The publication is subject to the force major clause.
8. Bidding in the last moment should be avoided in the bidders own interest as neither the Ujjivan Small Finance Bank nor Service provider will be responsible for any lapse/failure/Internet failure/power failure etc., in order to ward-off such contingent situations bidders are requested to make all necessary arrangements/ alternatives such as power supply back-up etc, so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.
This is also a notice to the above named borrowers/Guarantor/s/Mortgageors about public auction scheduled for sale of mortgaged properties.
Date: 05.09.2023
Place: Noida
Authorized Officer, Ujjivan Small Finance Bank

With infra boom, cement firms build strategies to tap demand

AMRITHA PILLAY
Mumbai, 4 September

As India's expenditure on infrastructure grows, cement companies are adopting different strategies to attract a share of the rise in demand.

Expanding the network of large buyers, entry into ready-mix cement, and catering to a niche of blended cement are some strategies being considered.

While UltraTech Cement dominates this segment, each large producer is shaping up strategies to tap into it.

Infrastructure contributed 24 per cent of India's cement demand in FY23 and is expected to witness higher growth rates than demand in some other areas in the next three financial years, according to estimates of cement companies.

Adani Cement is planning to expand its ACC ready-mix network, and develop stronger large-buyer sales to tap into the demand generated by India's growing infrastructure needs.

"Thirty per cent of our demand will come from large buyers. That might happen two-three years down the line," said an executive from Adani Cement, the second-largest cement producer in the country.

The executive added: "As we aspire to increase our capacity from 67.5 million tonnes to 140 million tonnes, we cannot realise that ambition without servicing the infrastructure segment." The share of large buyers at present for

EXPANDING REACH

- Expansion of the large buyers' network, entry into ready-mix cement and catering to a niche of blended cement are some of the strategies of cement industries
- Adani Cement plans to expand its ACC ready-mix network, and

develop stronger large buyer's sales

- In July, Shree Cement announced its entry to set-up five RMC units

- Dalmia Cement are aiming to supply more infrastructure projects in the sub-category of blended cement



'Shree Cement to scout for acquisitions at right price'

Shree Cement will continue to explore acquisition opportunities at the right price, said Prashant Bangur, vice-chairman.

The company recently lost out in the race for Sanghi Industries, which was acquired by Adani-owned Ambuja Cements in August at an enterprise value of ₹5,000 crore. Shree Cement's bid was understood to be significantly

lower. Bangur said that the company would evaluate acquisition opportunities in any part of the country provided it made sense in terms of valuation.

"Acquisition is a chance game," Bangur also noted. He was speaking on the sidelines of STATECON, an annual real estate conference organised under the aegis of CREDAI West Bengal.

ISHITA AVAN DUTT

Adani Cement is around 20 per cent.

Ready-mix cement is another segment that companies are expanding into. In July, Shree Cement announced its entry into ready-mix cement, with plans to set up five such units this

financial year. "Some large projects have their own ready-mix cement units while others may not have them. Ready-mix cement will typically cater to large projects that outsource the concrete. It may be builders, individual home

builders as well as projects like metro and roads," said Prashant Bangur, vice-chairman of Shree Cement. Ready-mix cement refers to concrete that is ready to use and does not require any additional processing on site, making it ideal for projects with space constraints.

In August, Nuvoco Vistas Corp announced setting up two ready-mix cement units, one each in Mumbai and Pune, which, the company said, would help leverage "Mumbai's significant infrastructure transformation and Pune's impressive expansion in the construction domain".

Certain others such as Dalmia Cement are aiming to supply more infrastructure projects in the sub-category of blended cement. Top executives of the company told analysts in its earnings call in July the National Highways Authority of India and other important projects had started using blended low-carbon cement on account of carbon awareness. The company is going to increase its share only in blended low-carbon cement. Blended cement refers to cement manufactured through blending clinker with other materials such as slag and fly ash, reducing its carbon content. However, not everyone is sure of a market for blended cement.

"Ordinary Portland cement is the major cement type for infrastructure companies. Cement firms are looking at blended cement from an ESG point of view, but cost is the main factor in the large buyer segment for infrastructure," said an analyst with a domestic brokerage firm.

VW, Mahindra in talks for EV components

Volkswagen said on Monday it was in advanced talks with India's Mahindra & Mahindra on the use of key electric components of the German carmaker's open platform for electric vehicles (EVs), called MEB.

Mahindra plans to use central MEB components such as the e-drive and unit cells for its models, Volkswagen said in a statement.

Volkswagen has developed a modular, open vehicle platform for EVs, called MEB, which is used to build its cars and those of other group companies including Skoda and Audi. This also allows Volkswagen to be a supplier of electric technology and parts to other automakers.

In August, Volkswagen



and Mahindra signed a term sheet under which the German carmaker would supply electric components to its Indian peer.

The carmaker was also in talks with other players about similar deals to adopt Volkswagen technology, Ludwig Fazel of Volkswagen Group Components said, though these were not finalised.

REUTERS

Volvo bets on EVs, eyes record sales in 2023

SOHINI DAS
Mumbai, 4 September

Volvo is betting on electric vehicle (EV) launches in 2023 to reach a new milestone in India — the highest ever car sales. Previously, its highest sales were at 2,600 cars in the year 2018.

Volvo Cars India on Monday launched the C40 Recharge. It has been priced

at ₹61.25 lakh. The C40 Recharge is its second EV offering in India after the XC40 Recharge. The XC40 Recharge has seen good response in the last seven to nine months, said Jyoti Malhotra, managing director (MD), Volvo Cars India.

Speaking to *Business Standard*, Malhotra revealed that the car has already garnered around 25 per cent

share in the luxury EV market in India. It also contributes around 27 per cent of Volvo India's sales.

With the C40 Recharge in its kitty, it expects sales to pick up in the second half of the year.

As such, the luxury EV market is growing — from 500-600 cars a year back, to 2,000 cars or so (expected this year).

Honda launches new SUV to reach H2 target

Honda Cars on Monday launched a sports utility vehicle (SUV) called Elevate at a starting price of ₹10.99 lakh to reach its target of 35 per cent year-on-year growth in the October-March period of FY24.

Kunal Behl, vice-president (Marketing & Sales), Honda

Cars India, told *Business Standard* that the mid-size SUV segment, wherein Elevate is placed, has recorded a compound annual growth rate (CAGR) of about 21 per cent in the last five years.

"Even in this year, the growth is primarily coming

from this segment. This segment is very crowded. It has about 20 models. Elevate will have a distinctive position as it offers a unique shape, interior and exterior, and offers a good package as far as comfort and convenience are concerned," he added.

DEEPAK PATEL

Airtel to purchase 23,000 Mwh of renewable energy in Q4FY24

Bharti Airtel on Monday announced that it would purchase 23,000 Mwh (Megawatt hour) of renewable energy by the fourth quarter of FY24 for its data centre company, Nxtra.

Airtel will do this by acquiring stakes in two renewable energy project companies — Continuum Green India and Vibrant Energy Holdings. The energy will power six of Nxtra's Edge data centre

facilities. The purchase will be made through an open access route where Airtel will acquire a stake in Continuum Green, which will supply green power from solar and wind power projects to data centres in Madhya Pradesh. A similar stake purchase agreement with Vibrant Energy will supply solar power to Nxtra's edge data centre in Vijaywada, Andhra Pradesh,

the company said. Nxtra is committed to become a net zero company by 2031, Ashish Arora, CEO - Nxtra by Airtel, said. "We believe that India's growth will be mirrored by its Data Center industry growth in the coming years and are committed to reduce our carbon footprint and lead the Green Data Center infrastructure revolution in the country," he said.

SUBHAYAN CHAKRABORTY

RKEC PROJECTS LIMITED
(CIN: L45200AP2005PLC045795)
Registered Office: Door No.10-12-1, Rednam Alcazar,
3rd Floor, Opposite SBI Main Branch, Rednam Gardens,
Visakhapatnam, Andhra Pradesh- 530002, Tel No.: 0891-2574517.
E-mail: info@rkecprojects.com Website: www.rkecprojects.com

PUBLIC NOTICE OF 18th ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OVAM AND BOOK CLOSURE
Notice is hereby given that, the 18th Annual General Meeting ("AGM") of the members of RKEC Projects Limited ("Company") will be convened through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013 and the rules notified there under, read with general circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 02/2021 dated 13.01.2021) and Securities and Exchange Board of India (SEBI Circular Dt. 12.05.2020 and SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dtd. 15.01.2021). The 18th AGM of the Company will be convened on **Wednesday, 27th September 2023** at 11:30 A.M.(IST), through VC/OVAM facility provided by National Securities Depositories limited ("NSDL") to transact the Business set out in the Notice of AGM. The members can attend and participate in the AGM only through VC/OVAM as no provisions has been made to attend the AGM in person. The attendance through VC/OVAM will be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM. The Notice of AGM with integrated Annual Report has been sent on 4th Sep 2023 in electronic mode to all the members who have registered their email address with the Company/Depository Participants. No physical copies would be sent to any member. The Notice of the AGM with Annual Report is also available on Company's website i.e. www.rkecprojects.com and on the stock exchange website i.e. www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Members holding shares either in physical or dematerialized form as on the cut-off date of 20th September 2023 shall be entitled to remote e-voting. Electronic Voting shall also be made available at the AGM and the members who have not casted their votes through remote e voting shall be able to vote at AGM. The members who have already voted shall not be allowed to vote during AGM but can attend the AGM. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing E - Voting facility to its Members to exercise their votes electronically for transacting the items of businesses as enumerated in the Notice of the 18th AGM through NSDL.

| | |
|--|--|
| 1. Cut-off Date for determining the eligibility of members for voting through remote e voting and during AGM | 20th September 2023 |
| 2. Day, Date and Time of commencement of e-voting | Sunday, 24th September 2023 at 9:00 A.M (IST) |
| 3. Day, Date and Time of end of e-voting | Tuesday, 26th September 2023 at 5:00 P.M (IST) |

The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Any person who acquires shares of the Company and become member after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 20th Sep 2023, may obtain the User ID and Password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. For details regarding e-voting, please refer to the notice of the AGM. Notice is hereby given pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI(LODR) Regulations, 2015, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20th to 27th September 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

For RKEC Projects Limited
Sd/-
Deepika Rathi
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Visakhapatnam
Date: 4th September 2023

LOOKS HEALTH SERVICES LIMITED
CIN: L93030MH2011PLC222636
Regd. Office: 5 & 9, Floor - 1 & 2, Plot - 27/33, Beaumont Chambers, Nagindas Master Lane, Hutatma Chowk, Fort, Mumbai - 400001 | Phone No.: 97734 13916
Email: lookshealthservices@gmail.com; | Website: www.looksclinic.in

NOTICE OF TWELFTH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 12th (Twelfth) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 29th September, 2023 at 09:30 A.M. at 5 & 9, Floor - 1 & 2, Plot - 27/33, Beaumont Chambers, Nagindas Master Lane, Hutatma Chowk, Fort, Mumbai - 400001 to transact the businesses as set forth in the Notice of the Meeting.

Members are hereby informed that in accordance with MCA/SEBI Circulars, the Notice of the 12th AGM of the Company has been sent on Monday, 04th September, 2023 to those shareholders whose names appear in the Register of Members as on Friday, 01st September, 2023, and whose email id's are registered with the RTA/DP. The notice of the AGM and Annual report of the Company for FY 2022-2023 is also available on the Company's website at www.looksclinic.in.

Further to facilitate other shareholders whose email id's are not registered, to receive this notice electronically and cast their vote electronically, special arrangement has been made with its Registrar & Share Transfer Agent for registration of email addresses in terms of the General Circulars of MCA. The process for registration of email addresses is as under:
Pursuant to the aforesaid Circular issued by Ministry of Corporate Affairs, shareholders who have not registered their email address may temporarily get their email address registered with the Company's RTA, Skyline Financial Services Private Limited, by clicking the link: <http://www.skylinertat.com/EmailReg.php>. Post successful registration of the email, the shareholder would get soft copy of the notice and the procedure for e-voting along with the User ID and Password to enable e-voting for this AGM. In case of any queries, shareholder may write to admin@skylinertat.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, Notice is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 22nd September, 2023 to Friday, 29th September, 2023 (both days inclusive), for the purpose of AGM of the Company.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, read with Rules and Regulations 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members have an option to vote electronically through remote e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL) or vote through Polling papers at the venue of AGM. Members can opt for only one mode of voting i.e. either through polling papers or remote e-voting. In case members cast their votes through both the modes, voting done by remote e-voting shall be considered and votes cast through polling papers at the AGM shall be treated as invalid.

The members of the Company are also hereby informed and requested to note that:
1. The Notice of 12th AGM is available on the website of the Company i.e. www.looksclinic.in and also on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com.
2. The remote e-voting is optional and portal will remain open from Monday, 25th September, 2023 (09:00 A.M.) till Thursday, 28th September, 2023 (05:00 P.M.). The remote e-voting shall be disabled by NSDL thereafter.
3. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, 22nd September, 2023.
4. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after publication of Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, 22nd September, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or admin@skylinertat.com. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user Id and password can be used for casting vote.
5. The facility for voting through polling paper shall also be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through polling papers.
6. A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to cast his/her vote again at the AGM.

Any grievances connected with the electronic voting or voting through polling paper can be addressed to the Company at the contact details given above.

For Looks Health Services Limited
Sd/-
Kanchan Kaku
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 04th September, 2023

SURAJ PRODUCTS LIMITED
CIN-L26942OR1991PLC028265
Regd. Off. : Vill. : Barpali, P.O.: Kesramal Rajgangpur, Dist. : Sundargarh, Odisha - 770017

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at its Registered office on Monday, the 11th day of September, 2023 inter alia to transact the following business:
1. To discuss general affairs of the Company.
2. Any other item, if any with the permission of the Chair.

Date: 04.09.2023 By order of the Board
Place: Barpali A. N. Khatusia
Company Secretary

SB भारतीय स्टेट बैंक Retail Assets Central Processing Center, Kalyan, Ground Floor & 1st Floor, Millennium Heights, Shahad Mahone Road, Shahad, Kalyan (W) - 421103

DEMAND NOTICE

A notice is hereby given that the following borrower/s Mr. Santosh Anaji Rahatal, (1) 502, Gulmohar Garden, Off Ganeshi Mandir Rd, Near Ghar Angan Society Titwala-421605, (2) 2. Rudraksha Co-op Scty, Nr Ganjapath Society, Mhasrul, Dindori Road, Nasik - 422004, (Loan A/C - 36738468022/ 36740180573 / 38937322773) have defaulted in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by them from the Bank and the loans have been classified as Non Performing Assets (NPA) on 30/05/2023. The notices were issued to them on 08/07/2023 under section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 on their last known addresses, but have been returned unsorted, they are hereby informed by way of this public notice.
Amount Outstanding : **Rs.33,67,619.00 (Rupees Thirty Three Lakhs Sixty Seven Thousand Six Hundred Nineteen Only)** as on 08/07/2023 with further interest and incidental expenses, costs, etc.
The steps are being taken for substituted service of notice. The above Borrower(s) and/or their Guarantor(s) (whenever applicable) are hereby called upon to make payment of outstanding amount within 60 days from the date of publication of this notice, failing which further steps will be taken after expiry of 60 days from the date of this notice under sub-section (4) of section 13 of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. *The borrowers attention is invited to provision of sub-section (b) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.*
Description of immovable properties
Flat No. 502, A Wing, Gulmohar Garden, Plot No.223/2, Ganpati Mandir Road, Near Ghar Angan Society, Titwala East, Thane - 421605
Date: 31/08/2023 Place: Kalyan Authorised Officer, State Bank of India

APPOINTMENTS

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda

www.bankofbaroda.in

RECRUITMENT NOTICE

Bank of Baroda, One of India's Largest Banks is looking for experienced professional to Head the Personal Loan Portfolio.
Join India's International Bank for a challenging career and become a part of it's growth journey

| Sn. | Name of the Post | Vacancy | Location |
|-----|-------------------------------|---------|----------|
| 1 | Business Head - Personal Loan | 1 | Mumbai |

Nature of engagement - Contractual Engagement for a period of 3 years, with periodic performance review, extendable at the option of the Bank.
Remuneration - Remuneration will be offered based on candidate's qualifications, experience, overall suitability, last drawn salary of the candidate and market benchmark, which shall not be a limiting factor for suitable candidate.
Details of the position, eligibility criteria (age, qualification & experience), requisite fees etc. are available on Bank's website. Interested candidates are advised to visit the Bank's website www.bankofbaroda.in -> Career Page -> Current Opportunities -> 'Recruitment of Business Head - Personal Loan on Contract Basis', for further details.
Candidates are advised to go through the detailed advertisement, ensuring their eligibility and other details before applying and remitting fees.
Any addendum/ corrigendum/ modification shall be notified only on the Bank's website
Date for filling Online Application & Payment of Fee: 05.09.2023 to 25.09.2023 (23:59 hours).

Place: Mumbai
Date: 05.09.2023

CHIEF GENERAL MANAGER (HRM)

75/23-24

NSE

REVOLUTIONS ARE BORN IN THE HEARTS OF GIANTS

Remembering the self-driven man who was the driving force behind the Indian capital market on his 86th birth anniversary.





Dr. R H Patil was a visionary leader and a transformative force in finance. His disciplined journey harmonised innovation and institution-building, reshaping India's capital market.

He democratised the capital market, radiating humility that inspired all. A reformist, he was futuristic and empathetic at the same time, forging a humane financial ecosystem.

Dr. Patil was not just a pioneer, but also a maestro.

We commemorate Dr. R H Patil, the man who shaped the Indian economy, to make it a force to be reckoned with.

With deep gratitude,
The NSE family.



संक्षेप में राजेश नांबियार बने नैसकॉम के चेयरपर्सन सिप्ला की दौड़ में टॉरंट आगे आईटी कंपनियों की नजर जेनएआई पर

संक्षेप में

राजेश नांबियार बने नैसकॉम के चेयरपर्सन

सांफ्टवेयर कंपनियों के राष्ट्रीय निकाय नैसकॉम ने कॉमिजेंट इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक राजेश नांबियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने की सोमवार को घोषणा की। नैसकॉम ने बयान में कहा कि नांबियार संगठन के चेयरपर्सन के रूप में अनंत माहेश्वरी की जगह लेंगे। माइक्रोसांफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष माहेश्वरी का नैसकॉम चेयरपर्सन के रूप में कार्यकाल पूरा हो गया है। अभी तक नांबियार नैसकॉम के वाइस चेयरपर्सन थे। वह चेयरपर्सन बनने के बाद संगठन की अध्यक्ष देवजानी घोष के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए काम करना जारी रखेंगे।

देव चटर्जी मुंबई, 4 सितंबर

अहमदाबाद की दका कंपनी टॉरंट फार्मास्यूटिकल अपनी प्रतिस्पर्धी सिप्ला के अधिग्रहण के लिए अग्रणी बनकर उभरी है। उसकी बोली अमेरिकी निजी इक्विटी दिग्गज ब्लैकस्टोन की पेशकश के मुकाबले 30 प्रतिशत अधिक है। इन घटनाक्रम से अवगत एक अधिकारी के अनुसार, जहां ब्लैकस्टोन ने करीब 900 रुपये प्रति शेयर पर अपनी बोली सौंपी थी, वहीं टॉरंट की नकदी पेशकश करीब 1,200 रुपये प्रति शेयर है, जो मौजूदा बाजार भाव के आसपास है। सिप्ला का शेयर सोमवार को 1,239 रुपये पर बंद हुआ। टॉरंट फार्मास्यूटिकल ल और ब्लैकस्टोन के अधिकारियों ने इस संबंध में प्रतिक्रिया देने से इनकार कर



दिया है। सिप्ला में प्रवर्तक हमीद ने इस संबंध में भेजे गए ईमेल संदेशों का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। एक प्रवर्तक ने कहा कि हमीद परिवार टॉरंट पेशकश पर दो या तीन सप्ताह में निर्णय ले सकता है। अन्य अधिकारी ने कहा कि ब्लैकस्टोन ने अब तक अपनी पेशकश संशोधित नहीं की है और मौजूदा बाजार भाव को

अधिग्रहण की तैयारी

■ **अधिग्रहण के लिए टॉरंट की पेशकश ब्लैकस्टोन के मुकाबले 30 प्रतिशत महंगी है**

■ **जहां ब्लैकस्टोन ने करीब 900 रुपये प्रति शेयर पर अपनी बोली सौंपी थी, वहीं टॉरंट की पेशकश करीब 1,200 रुपये प्रति शेयर है**

■ **यह फार्मा क्षेत्र में संभवतः अब तक का सबसे बड़ा सौदा होगा**

अधिग्रहण की तैयारी

डॉलर होगा। अधिकारी ने कहा कि यह फार्मा क्षेत्र में संभवतः अब तक का सबसे बड़ा सौदा होगा। सिप्ला का बाजार पूंजीकरण सोमवार को 1 लाख करोड़ रुपये पर था। टॉरंट से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि समूह सिप्ला का अधिग्रहण करने के लिए कई निवेशकों से बातचीत कर रहा है, जिनमें निजी इक्विटी कंपनियां भी शामिल हैं। सिप्ला राजस्व के संदर्भ में टॉरंट से बड़ी कंपनी है। अधिकारी ने कहा, 'प्रवर्तक एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और सिप्ला इसे लेकर उत्साहित है कि कंपनी सक्षम नेतृत्व के अधीन आगे बढ़े।' टॉरंट का बाजार पूंजीकरण मौजूदा समय में करीब 62,880 करोड़ रुपये है और इस साल मार्च तक उसके बहीखाते में करीब 827 करोड़ रुपये की नकदी थी। बर्नस्टीन के विश्लेषकों ने 30 अगस्त को अपने ग्राहकों को भेजी एक रिपोर्ट में कहा, 'हमारा मानना है कि यह सौदा टॉरंट (प्रवर्तकों की मौजूदा समय में 71 प्रतिशत हिस्सेदारी) में 20-25 प्रतिशत प्रवर्तक हिस्सेदारी बिक्री और निजी इक्विटी भागीदारी तथा विदेशी बैंकों से कोष उगाही के जरिये संभव है।'

आईटी कंपनियों की नजर जेनएआई पर

आयुष्मान बरुआ बेंगलूर, 4 सितंबर

तुरंत राजस्व कमाने में मदद नहीं मिल सकती। का लाभ उठाने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि जेनएआई आईटी प्रदाताओं के लिए मार्जिन अनुकूल है, क्योंकि वे इस ग्राहक परियोजनाओं के लिए समय की बचत के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मित्तल ने कहा, 'इसलिए, यह उन्हें सामान कार्य पहले की तुलना में ज्यादा कारगर तरीके से करने में सक्षम बनाएगा। उदाहरण के लिए, शुरुआती परिणाम से संकेत मिलता है कि डेवलपर उत्पादकता 35 प्रतिशत बढ़ सकती है, जिसकी मदद से टेक कंपनियों को बड़ी बचत करने में मदद मिलेगी।' डेलॉयट द्वारा जारी 'स्टेट ऑफ एआई इन इंडिया' रिपोर्ट के अनुसार एआई में भारीसा बढ़ाई है, क्योंकि आईटी क्षेत्र समेत विभिन्न व्यवसायों ने पिछले साल की तुलना में अपने एआई निवेश में वृद्धि दर्ज की है।

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड

टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उद्यम

रजि. ऑफिस : एनडीपीएल हाउस, इंदराना लाइन, किंग्सफोर्स कैंप, दिल्ली-110009
फोन : 86112222, फैक्स : 27468042, ईमेल : TPDDL@tatapower-dli.com
CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाइट : www.tatapower-dli.com

शुद्धिपत्र / निविदा तिथि विस्तार Sep 05, 2023

| निविदा पृष्ठच्छा सं. कार्य का विवरण | पूर्व प्रकाशित दिनांक | संशोधित निविदा तिथि/बोली जमा करने की तिथि/बोली खोलने की तिथि |
|--|-----------------------|--|
| TPDDL/PMG/Tender/Banking-2023/01 Notice Inviting bids for banking of up to 300 MW RTC / Slot-wise power on firm basis for the period of 01.11.23 to 30.09.24. | 10.08.2023 | 15.09.2023 at 1500 Hrs/ 15.09.2023 at 1530 Hrs |

PSM Conditions: The condition of submission of LCB/BG for an amount equivalent to 25% of the contracted energy calculated @ Rs. 6.00/kWh* has been removed - Please refer detailed corrigendum on TPDDL website.

सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध
Website www.tatapower-dli.com → Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents
Contracts - 011-66112222

E Tender Notice

e-Tenders are being invited by the undersigned from bonafided agencies for 2 (two) nos Civil works under Bankura Municipality vide Tender Reference No. WB/MAD/CM/BM/16/SL1-2/23-24 vide this office memo no. 2399/VIII-14 dated 04/09/2023; Tender IDs: 2023_MAD_562893_1 to 2. Bid submission closing date 18/09/2023 up to 18.00 Hrs. (IST). The details of above tenders may be seen at <http://wbenders.gov.in>

Sd/-
Chairperson Bankura Municipality

शमा इंजिन वाल्व्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बी-28, मुहाराजी बाग, नई दिल्ली-110065, भारत
फोन नं.: 01149727000,
ई-मेल: shamaenginevalvesd@gmail.com
वेबसाइट: www.shamaenginevalvesd.com
सीआईएन: U29110DL1961PLC003528

वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित लेनदेन के लिए शमा इंजिन वाल्व्स लिमिटेड के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक शनिवार 30 सितंबर 2023 को प्रातः 9:30 बजे, एस-1, दूसरी मंजिल, शॉप कम फैंसिलिटी सेंटर, पॉकेट-ए, डीएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, बवाना, दिल्ली-110039 पर होगी।

साधारण व्यवसाय:

- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित बैलेंस शीट प्राप्त करना, विचार करना और अपनायान।
- श्री मनीष कुमार अरोड़ा (DIN:00049518) को निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करते हैं।
- सिंहल मट्टा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 001288N) को इस वार्षिक आम बैठक के समानपन से 31.03.2028 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर आयोजित वार्षिक आम बैठक के समानपन तक कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करना।

विशेष व्यवसाय:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के तहत निदेशक मंडल को कंपनी की ओर से कोई भी ऋण, वित्तीय सहायता लेने के लिए अधिकृत करना।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ए) के तहत कंपनी की चल और अचल संपत्तियों पर शुल्क बनाने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

बोर्ड के आदेशानुसार

H. / -
प्रीति सरनी निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.09.2023

यूको बैंक UCO BANK

(मूल बरकरार का उद्यम)

प्रधान कार्यालय - II, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, 3 और 4, डीडी ब्लॉक, सेक्टर -1, सॉफ्ट टेक, कोलकाता-700064

निविदा की सूचना

यूको बैंक निम्नलिखित नदी के लिए निविदा आमंत्रित करता है -

- उपरोक्त नदी के किनारे से अनुमोदित प्रवर्तन निष्पादनी व्यवधान की खरीद।
- उपरोक्त नदी के किनारे से डेड स्टोर के लिए एच 2 रिज, सारवर्त और फायरवॉल की खरीद।

किसी भी विवरण के लिए कृपया <https://www.ucobank.com> OR <https://gem.gov.in> वेबसाइट पर देखें (उप महाप्रबंधक)

दिनांक: 05.09.2023 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

सक्षमता आपके विश्वास का | Honours Your Trust

Office of The Hooghly Zilla Parishad P.O.-Chinsurah, Dist.-Hooghly

NIT No. : HGL/N-029/2023-24 and HGL/N-030/2023-24.

For details log on to "e-procurement" link under <https://wbenders.gov.in> and <http://www.hooghlyzyp.org> Website.

Sd/- District Engineer Hooghly Zilla Parishad

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाइंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AAECT0343B127), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोचि - 682018, केरल, भारत. CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण सुझाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.03.2023 की अवधि तक नकली & कम शुद्धता) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेंगे। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

प्रथम नीलामी की तिथि: 15.09.2023

नकली & कम शुद्धता: Bilaspur-Juna: MUL-6540
द्वितीय नीलामी की तिथि: 16.09.2023, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., First Floor, Naven Plaza, Near Ajeet Hotel, Telipara, Bilaspur-495001

प्रथम नीलामी की तिथि: 15.09.2023

नकली & कम शुद्धता: Durg: MDL-885
द्वितीय नीलामी की तिथि: 25.09.2023, Auction Centre: Muthoot Finance Limited, First Floor, R.K. Height, Opposite Kewal Bhawan, Station Road, Gher Chowk, Durg-491001

प्रथम नीलामी की तिथि: 20.09.2023

नकली & कम शुद्धता: Rach-Harmu Road: MUL-8194, TMS-835
द्वितीय नीलामी की तिथि: 21.09.2023, Auction Centre: First Floor, Rukmani Tower, Opp. Goshala Chowk, Harmu Road, Ranchi, Jharkhand-834001

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उहाँ शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी दूसरी नीलामी की तारीख को क्रमशः दिनेश एच नीलामी केंद्र में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी आगामी और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सब के बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचना नहीं दी जाएगी।

कोहली एण्ड सोब्रि, एडवोकेट, ए 59ए

पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का मुगलान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: recoverynorth@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड

CIN- L26942OR1991PLC002865

पंजीकृत कार्यालय: ग्राम: बड़पाली, डाकघर: केसरानगर राजगंजपुर, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा-750017

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं कंत्रालय आदेशों) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित निविदाएं 47 के अनुषंगाने के तहत एतद्वारा सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लिखित व्यवसायिक पहलुओं के साथ अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक पंजीकृत कार्यालय में सोमवार, 11 सितंबर, 2023 को आयोजित होगी:

- कंपनी के साधारण कार्यकलापों पर चर्चा।
- अध्यक्ष की अनुमति पर अन्य कोई भी विषय, यदि कोई है, पर विचार करने हेतु।

बोर्ड के आदेशानुसार
दिनांक : 04.09.2023 ए. एन. खुदुआ स्थान : बड़पाली कंपनी सचिव

IDBI BANK

एनपीए प्रबंधन समूह, चौथी मंजिल, आईडीबीआई हाउस, 44, सेक्टर/वेस्ट सर्किल, कोलकाता 700 017
वेबसाइट: www.idbibank.in CIN: L65190MH2004GOH148833

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

भक्तिनगर, थाना-सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण स्थान में बिक्री के लिए वाणिज्यिक गहनों की सूचना। मेसर्स जय मातादी इंटरप्राइज के खाते में श्री शंकर चौरसिया (गिरवीदाता) की अचल संपत्तियों की बिक्री

आईडीबीआई बैंक लि. (आईडीबीआई) के अधिकृत अधिकारी (एचओ) के रूप में अशोकदासराई द्वारा मॉडल कक्षा करने के लिए जिला न्यायाधीश, जलपाईगुड़ी से प्राप्त आदेश दिनांकित 21 अक्टूबर, 2014 तथा दिनांक 11 अगस्त, 2014 को प्रतीकात्मक कक्षा के आधार पर प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों के अधीन मेसर्स जय मातादी इंटरप्राइज के खाते में श्री शंकर चौरसिया (गिरवीदाता) की नीचे उल्लिखित संपत्ति की बिक्री के लिए पेश/प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

1. श्री शंकर चौरसिया की संपत्ति का संक्षिप्त विवरण: पश्चिम में 42, एच.एम.सी., प्लॉट नं. 47/74, 47/148, 46, खतियान नं. 237, जे. एन. नं. 02, भक्ति नगर, जिला-जलपाईगुड़ी, मौजा-दाबग्राम, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित तथा प्लॉट नं. 3022 के हिस्से के रूप में सम्मिलित भूमि का सम्पूर्ण एवं सर्वोन्मूल्य हिस्सा। भूमि का क्षेत्रफल-लगभग 5.66* एकड़ (* तदुपरान्त, सरकार द्वारा प्लॉट से ईस्टमेंट बाईसाइड निकाला गया है)। टिप्पणी: कुछ अनाधिकृत व्यक्ति उक्त संपत्ति पर अपनी अस्थाई दुकानें/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का परिचालन कर रहे हैं।

2. कंपनी/कर्म की प्रकृति **साधारण रकम** **30 अर्धवर्ष, 2013 को बकाया रकम (उपार्जित व्यय सहित)** **व्याज एवं निम्न तिथि से आगे के व्याज**

| मेसर्स जय मातादी इंटरप्राइज | कार्यशील पूंजी सुविधा | ₹. 4,05,37,659.00 (रुपये चार करोड़ पांच लाख सैतीस हजार छह सौ उनसठ मात्र) | 01 मई, 2013 |
|-----------------------------|-----------------------|--|-------------|
|-----------------------------|-----------------------|--|-------------|

टिप्पणी: 01 मई, 2013 को कुल बकाया ₹. 26,10,42,556/- (रुपये छहबीस करोड़ दस लाख बयालीस हजार पांच सौ छप्पन मात्र) है (उपार्जित व्यय तथा उपार्जित व्यय सहित)।

3. आरक्षित मूल्य **ईएमडी** **निरोधक की तारीख** **मुहरबंद बोलियां जमा करने की अंतिम तारीख** **ई-नीलामी की तारीख एवं समय**

| ₹. 18,00,00,000 | ₹. 1,80,00,000 | 11.09.2023 से 12.09.2023 तक | 20.09.2023 को शाम 6.00 बजे तक | 22.09.2023 (पूर्वाह्न 11.00 से दोपहर 12.00 बजे तक) |
|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--|

4. बोली दस्तावेज में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का सारांश: i. किसी ई-नीलामी सेवा प्रदाता अंतर्गत सिस्टम लिमिटेड के जरिए वेबसाइट www.bankauctionwizard.com के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर संचालित की जाएगी। ii. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली के साथ ईएमडी तथा केवाईडी दस्तावेज (पैन कार्ड तथा पता का साक्ष्य) जमा करना होगा। iii. ईएमडी प्राप्त होने पर बोलीदाताओं को ई-नीलामी सेवा प्रदाता www.bankauctionwizard.com से उनके बैंक ईमेल आईडी (ई-नीलामी के लिए अनिवार्य) पर यूजर आईडी/पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। iii. इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा मुगलान की गई ईएमडी की रकम पर व्याज प्रदान नहीं किया जाएगा। iv. संपत्ति की बिक्री 'जैसे है जहां है', 'जैसे है जो है', 'यहां जो कुछ है' तथा 'बिना किसी दायित्व' के आधार पर की जाएगी। एचओ किसी भी तरह के बकाया, संश्लिष्ट अथवा वर्तमान तारीख को अन्य बकाया तथा बकाया होने वाली रकम साथ में जेट के नाम पर संपत्ति के हस्तांतरण में प्रभावित करने वाला बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा तथा ऐसे बकाया, यदि कोई हो, का वहन जेटा को करना होगा। बैंक एनपीए जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता है। संश्लिष्ट बकाया तथा कर्जदाता को ज्ञात न्यायालय में लक्षित मामले का विवरण बोली दस्तावेज में उपलब्ध है। v. विवरण प्रक्रिया, नीलामी प्रक्रिया के नियम एवं शर्तों के लिए इच्छुक बोलीदातागण अधिकृत अधिकारी, उप महाप्रबंधक, एनपीए प्रबंधन समूह आईडीबीआई बैंक लि., चौथी मंजिल, आईडीबीआई हाउस, 44, सेक्टर/वेस्ट सर्किल, कोलकाता-700017 से 06 सितंबर, 2023 से 20 सितंबर, 2023 तक किसी भी कार्यकारी दिवस को (शुक्रवार एवं छुट्टी के दिनों को छोड़कर) सुबह 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक बोली दस्तावेज प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकते हैं। vi. बोली दस्तावेज आईडीबीआई बैंक लि. की वेबसाइट (www.idbibank.in) तथा www.bankauctionwizard.com से डाउनलोड कर सकते हैं। vii. ई-नीलामी की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बोली दस्तावेज देखें तथा ई-नीलामी से पहले पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं/पंजीकरण के लिए कृपया वेबसाइट www.bankauctionwizard.com पर पंजीकरण प्रक्रिया देखें। viii. इच्छुक बोलीदातागण अधिकृत अधिकारी से (देली) 033-66557824, +91-9088021834, ईमेल: g_sarkar@idbi.co.in तथा/अथवा अर्पण वत्स से (देली) 033-6655782, (मोबा) +91-9981610356, ईमेल: arpan.dutta@idbi.co.in अथवा इंप्रोवेंट प्लेटफॉर्म फंडेस केयर संपर्क व्यक्ति श्री उमेश सिंह, सेल नं. +91-8340239153 से संपर्क कर सकते हैं। ई-नीलामी सहायता के लिए कृपया सुमिथा/कुशल, (मोबा) +91-8951944383/9674758719, ईमेल: sushmitha.b@antaressystems.com/ kushal.b@antaressystems.com से संपर्क करें।

सरकारी अधिनियम 2002 के नियम 9(1) के अधीन संश्लिष्ट सूचना: एतद्वारा कथित ऋण के कर्जदार/गिरवीदाताओं/गारंटीदाताओं को उक्त अधिनियम के नियम 8(6) एवं 9(1) के अधीन ऊपर उल्लिखित संपत्ति की ऊपर उल्लिखित तारीख को ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के संबंध में भी सूचित किया जाता है तथा उनकी उपस्थिति तथा उनसे सहयोग का अनुरोध किया जाता है।

हस्ता/अधिकृत अधिकारी आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 05 सितंबर, 2023

Mujivan SMALL FINANCE BANK

पंजीकृत कार्यालय: ग्रेप गार्डन, नं. 27 लीसा 'ए' क्रास, 18वां मेन, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु-560095

केन्द्रीय कार्यालय: जीएमटीडी बिल्डिंग फ्लॉट नं. डी-7, सेक्टर 3, नोएडा, उत्तर प्रदेश

शाखा कार्यालय: उज्जीवन स्मॉल फाईनेंस बैंक, रायपुर शाखा स्थित: आबादी खसरा नं. 139, एच.नं. 38/517, 518, 564/4, भूतल और प्रथम तल, तावपाड़ा, वार्ड नं. 38, पी.सी. नं. 106ए, आरआईएस - रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

सार्वजनिक नीलामी नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) और 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के तहत बिक्री हेतु सार्वजनिक नोटिस

अशोकदासराई ने उज्जीवन स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सरकारी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक के देयों की वस्तुओं के लिए नीचे वर्णित खाते में बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी "जहाँ है जैसी है", "जो है, जहाँ है", "जो भी है" आधार पर नीचे तालिका में उल्लिखित तिथि को आयोजित की जाएगी।

| क्र. सं. | ऋण खाता संख्या | कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती के नाम | 13-2 नोटिस की तारीख और मांग राशि | कब्जे की तारीख | वर्तमान बकाया राशि | संपत्ति निरोधक की तिथि व समय | आरक्षित मूल्य, ₹. में | घरहोद राशि जमा (ईएमडी) रु. में (आरक्षित मूल्य का 10%) | ई-नीलामी की तिथि व समय | बोली जमा करने की अंतिम तिथि | ईएमडी जमा करने के लिए खाता विवरण (ईएमडी उचित/अनुचित फाईनेंस बैंक के पक्ष में डिजिटल ड्रॉप्ट के माध्यम से जमा की जाए) |
|----------|--------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | 233921 018000 0027 | 1. श्री देमन लाल साहू पुत्र गोकुल राम साहू 2. सुशील तानवी साहू पत्नी देमन लाल साहू 3. गोकुल राम साहू पुत्र गोविन्द राम साहू 4. सुशील जानकी साहू पत्नी गोकुल राम साहू | 15.07.2021 ₹. 32,60,819.00/- | 21.07.2023 | ₹. 40,64,246.40/- (04.07.2023 को) | 22.09.2023 अप. 04.00 | ₹. 29.50 लाख | ₹. 2,95,000/- | 12.10.2023 अप. 02:00 | 10.10.2023 अप. 04:00 | ईएमडी उज्जीवन स्मॉल फाईनेंस बैंक के पक्ष में डिजिटल ड्रॉप्ट के माध्यम से जमा की जाए। आबादी खसरा नं. 139, एच.नं. 38/517, 518, 564/4, भूतल और प्रथम तल, तावपाड़ा, वार्ड नं. 38, पी.सी. नं. 106ए, आरआईएस - रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) |

संपत्ति का विवरण/अनुपूची: खसरा नं. 418/4 का भाग, पी.एच. नं. 105, वार्ड नं. 52, चंद्र शेखर आजाद वार्ड, मौजा-मठपुरेना, तहसील व जिला- रायपुर (छत्तीसगढ़)। सीमाएं- उत्तर: दुर्गेश का मकान, पूर्व: अन्य मकान, दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, पश्चिम: रोड

नियम एवं अनुदेश:

ई-नीलामी 'जैसी है, जहाँ है' और 'जहाँ है, जो भी है' आधार पर आयोजित की जा रही है।

- प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीकार बोली जमा करने से पूर्व नीलामी की जाने वाली संपत्ति पर किसी भी प्रकार के भार, संपत्ति पर हक, दायें/ अधिकार/बकाया आदि की अपनी जांच-पड़ताल कर लें। ई-नीलामी का विधान संकेत की ओर से कोई वायदा या बयान नहीं करता है और न ही ऐसा समझा जाए। संपत्ति बैंक को ज्ञात एवं अज्ञात सभी वर्तमान एवं भविष्य में होने वाले बंधों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रत्यक्ष देनदार तीसरी पार्टी दावों/अधिकारों/देयों के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे।
- बोली जमा करने से पूर्व सभी प्रकार से जांच करने और परिसंचित एवं विनिर्देशन के बारे में संतुष्ट होने की जिम्मेदारी स्वयं बोलीकार की होगी। नीलामी के लिए रखी संपत्ति/ओं के निरीक्षण प्रत्येक संपत्ति के विवरण में वर्णित साइटों पर इच्छुक निविदाकार को अनुमत होंगे।
- इच्छुक निविदाकार को उपरोक्त नीलामी तिथि से पूर्व अशोकदासराई प्राधिकृत अधिकारी के पास अपनी बोली जमा करनी होगी।
- ई-नीलामी उज्जीवन स्मॉल फाईनेंस बैंक के अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता - **मैसर्स सी-1 इंडिया, संपर्क व्यक्ति- विनोद चौहान (मोबा. नं. 9813887981)** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इच्छुक निविदाकार संपत्तियों के विवरण के लिए वेबसाइट <https://www.bankauctions.com> या <https://www.mujivansfb.in/e-auctions> देखें और बोली में भाग लेने के लिए वे पोर्टल <https://www.bankauctions.com> पर अपना नाम पंजीकृत करें और निम्नलिखित लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त करें। संपत्ति निविदाकार सेवा प्रदाता मैसर्स सी-1 इंडिया या. लि. हेल्पलाइन नं. 7291918824, 25, 26, संपादक ई-मेल आईडी: support@bankauctions.com, नीलामी पोर्टल: <https://www.bankauctions.com> से ई-नीलामी पर अनौपचारिक प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं।
- संपत्ति प्रत्यक्ष देनदार अर्थात् उज्जीवन स्मॉल फ

